

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2015—आश्विन 6, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्र. बी-बी-11-03-2015-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक बी-11-03-2015-चौदह-2, दिनांक 15 मई 2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ 2015 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में जिला खरगोन, धार, खण्डवा एवं छिन्दवाड़ा के ग्रामों की संलग्न संशोधित सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. मौसम खरीफ वर्ष 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची

| मौसम खरीफ | | वर्ष 2015-2016 | | 100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची | | | | | | | |
|-----------|--------|------------------|------------------|---|----------|------------|-------------|---------|------|-------|-------|
| जिला | तहसील | रा.नि.मं. का नाम | पटवारी हल्का नं. | पटवारी का नाम | मुख्यालय | धान सिंचित | धान असिंचित | सोयाबीन | तुअर | मक्का | बाजरा |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| खरगोन | कसरावद | कसरावद | 4 | बलगांव | - | - | सोयाबीन | - | - | - | |
| | | | 5 | बालसमुंद | - | - | सोयाबीन | - | - | - | |
| | | | 10 | मांगावा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | |
| | | | 17 | गवला | - | - | सोयाबीन | - | - | - | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---------|-----|-----------------|-----|-----|---------|-----|-----|------|------|
| खरगोन | मुलठान | 66 | लेपा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 67 | अमलाथा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 68 | भग्यापुर | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| खरगोन | खरगोन | 2 | दसंगा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 6 | साईखेडा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 8 | मोठापुरा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 12 | इच्छापुर | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 32 | रायबिडपुरा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 19 | आसनगांव | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 26 | रणगांव | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 44 | बलवाडी | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 49 | जामली | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| गोगांवा | गोगांवा | 6 | महम्मदपुरा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 9 | कुण्डिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 10 | ठीबगांव बुजुर्ग | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 19 | देवलगांव | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 23 | घुघरियाखेडी | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 38 | रूपाखेडा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 39 | सोलना | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 40 | गाडाघाट | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 44 | टेमरना | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 15 | मगरिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 45 | पिपलई | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 25 | राजपुरा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 34 | जगन्नाथपुरा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 36 | घट्टी | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| झिरन्या | झिरन्या | 9 | जामली | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 10 | मोरवा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 11 | देवित बु. | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 14 | चैनपुर | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 16 | बैठन्या बु. | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 17 | शिवना | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 18 | ठोकनबेडा | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 19 | पूनासला | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 22 | निमसेठी | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 23 | भडलेड | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 24 | लेड | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 25 | साका | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 26 | आभापुरी | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 27 | छेंदिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 28 | गवला | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |
| | | 29 | मिटवाल | - | - | सोयाबीन | - | - | - | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|-------|----------|---------------------|-----|---------------|-----|-----|---------|-----|-------|------|
| खरगोन | झिरन्या | झिरन्या | 31 | अम्बाडोचर | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 32 | टिगरिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 33 | रेहटफल | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 36 | पिपरी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 37 | गोरखपुर | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 39 | साईखेडा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 40 | बायखेडा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 44 | रातली | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 45 | बडी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 49 | डेहरिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | बडवाह | बडवाह (आर.आई.-1) | 14 | माचलपुर खुर्द | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 4 | टेमला | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 7 | सरपाला | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 10 | बिलाली | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 37 | सौरूठीबारूल | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | सनावद (आर.आई.-2) | 87 | भूलगांव | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 77 | डाल्याखेडी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 70 | लोंदी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 73 | डालची | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 78 | दाभड | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 83 | इडगांव | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 84 | चितावद | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 81 | बागदा बुजुर्ग | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 94 | बाल्या | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 95 | बिजलवाड़ा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 89 | बडूद | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 91 | साला | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 110 | ढसगांव | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 111 | छापरा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 96 | दसौडा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | भगवानपुर | भगवानपुर | 15 | करही | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 48 | धरमपुरी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 55 | गोटिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 22 | राजपुरा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 29 | गढी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 35 | सरवरदेवला | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 27 | ढाबला | - | - | - | - | मक्का | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|-------|----------|----------|-----|-------------|-----|-----|---------|-----|-------|------|
| खरगोन | भीगनगांव | भीकनगांव | 6 | निमोनी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 17 | अंजनगांव | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 42 | टेमला | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 48 | बलखड़िया | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 49 | सगूर | - | - | सोयाबीन | - | मक्का | - |
| | | | 50 | पोई | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 51 | भोपाडा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 53 | बमनाला | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 54 | बल्का | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 56 | सुवां कोयडा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 57 | सतवाडा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 58 | पोखराबाद | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 63 | पिपल्या | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 64 | बडिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 65 | पलासी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 66 | सुन्द्रैल | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | महेश्वर | करही | 59 | वणी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 70 | बरलाय | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | महेश्वर | 5 | सेल | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 6 | मकसी | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 16 | सिरस्या | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 33 | भकलाय | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 35 | भूदरी | - | - | सोयाबीन | - | मक्का | - |
| | | | 37 | मन्दौरी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | सेगांव | सेगांव | 9 | जमोठी | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 10 | जलगोन | - | - | - | - | मक्का | - |

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची

| मौसम खरीफ | वर्ष | 2015-2016 | 100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्का स्तर सूची | | | | | | | |
|-----------|--------|------------------|---|------------------------|------------|-------------|---------|------|-------|-------|
| जिला | तहसील | रा.नि.मं. का नाम | पटवारी हल्का नं. | पटवारी मुख्यालय का नाम | धान सिंचित | धान असिंचित | सोयाबीन | तुअर | मक्का | बाजरा |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| धार | कुक्षी | कुक्षी | 50 | उमरी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 51 | डोई | - | - | सोयाबीन | - | मक्का | - |
| | | | 57 | खरगोन | - | - | सोयाबीन | - | मक्का | - |
| | | | 62 | लोहारा | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 73 | मोगरा | - | - | - | - | मक्का | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|----------|---------|---------|-----|-----------|-----|-----|---------|-----|-------|------|
| धार | कुक्षी | कुक्षी | 77 | कापसी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 81 | गिरवान्या | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 82 | रोजा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| मनावर | मनावर | बाकानेर | 65 | पेरखड | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 67 | आमसी | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 81 | बोहरला | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 82 | दसाई | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 86 | कलालदा | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 87 | कुवाड | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 90 | उटावद | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| सरदारपुर | बरमण्डल | बरमण्डल | 17 | बरमण्डल | - | - | सोयाबीन | - | - | - |
| | | | 18 | चंदोडिया | - | - | सोयाबीन | - | - | - |

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची

| मौसम खरीफ | | वर्ष 2015-2016 | | 100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची | | | | | | | |
|-----------|-------|------------------|------------------|---|------------------------|------------|-------------|---------|------|-------|-------|
| जिला | तहसील | रा.नि.मं. का नाम | पटवारी हल्का नं. | पटवारी का नाम | पटवारी मुख्यालय का नाम | धान सिंचित | धान असिंचित | सोयाबीन | तुअर | मक्का | बाजरा |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| खण्डवा | हरसूद | किल्लोद | 3 | लछोरामाल | | - | - | सोयाबीन | - | - | - |

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची

| मौसम खरीफ | | वर्ष 2015-2016 | | 100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची | | | | | | | |
|------------|------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------|-------------|---------|------|-------|-------|
| जिला | तहसील | रा.नि.मं. का नाम | पटवारी हल्का नं. | पटवारी का नाम | पटवारी मुख्यालय का नाम | धान सिंचित | धान असिंचित | सोयाबीन | तुअर | मक्का | बाजरा |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| छिन्दवाड़ा | जून्नारदेव | जून्नारदेव | 00064 | चिखलार | | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00065 | बरेलीपार | | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00066 | कोरपानी खुर्द | | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00068 | घानाउमरी | | - | - | - | - | मक्का | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|------------|------------|------------|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| छिन्दवाड़ा | जून्नारदेव | जून्नारदेव | 00069 | बिन्दरई | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00070 | ढाकरवाडी | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00072 | ऑंकिया | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00073 | खिडकी कनेरी | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00074 | बेलगांव माल | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00075 | जम्बाकिराडी | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00076 | खुमकाल | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00077 | भतोडिया खुर्द | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00078 | कटकुही | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00079 | मोहगांव किसन | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00080 | पर्वत धोघरी | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00081 | डोडासेमर | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00082 | माचीघाट माल | - | - | - | - | मक्का | - |
| | | | 00095 | जमकुण्डा | - | - | - | - | मक्का | - |

टीप.—अधिसूचना में जिन ग्रामों के नाम त्रुटिपूर्ण पाये गये जो निम्नानुसार है:—

| जिला (1) | नाम तहसील (2) | नाम रा.नि.मं. (3) | प.ह.नं. (4) | त्रुटिपूर्ण ग्राम का नाम (5) | निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. (6) |
|-------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|---|
| छिन्दवाड़ा | जून्नारदेव | दमुआ | 63 | सुरनादेही कला | सुनारदेहीकला |